

सलौने श्याम को जब देखूं

सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ,
नज़र हटती नहीं सारी तमन्ना भूल जाती हूँ,
सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ।

कोई दूजा नहीं ऐसा जो नज़रों में समा जाए,
कहीं फिर और जाऊं में ये कान्हा भूल जाती हूँ,
सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ।

चलाते बाण नैनो से ये जिस दम मुस्कुराते हैं,
के दिल में जो कुछ रहता है कहना भूल जाती हूँ,
सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ।

बड़ी प्यारी सी चितवन है मेरे सरकार की ऐसी,
कहीं कुछ और देखूं मैं देखना भूल जाती हूँ,
सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ।

नज़ारा होता है दीदार का ऐसा चोखानी,
के वापस घर जाने का अपना रस्ता भूल जाती हूँ,
सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ।

सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ,
नज़र हटती नहीं सारी तमन्ना भूल जाती हूँ,
सलौने श्याम को जब देखूं दुनिया भूल जाती हूँ।

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/25483/title/salone-shyam-ko-jab-dekhu>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |